

**Summary of Government notification from 2023 to 2013 in view of waiver of Interest and Rebate on Payment of Arrears.**

Sr. No	Notification no.	Date	Waiver	Period of Waiver	Page no
1.	8/4/2023-4CII	17.10.2023	One time 15% rebate shall be allowed on the principal amount of property tax arrears for the years 2010-11 to 2022-23. And One time waiver of 100% of interest on the arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2022-23.	Upto 31 December	1-6
2	8/4/2023-4CII	05.10.2023	15% on demand for FY 2023-24 on self certification upto 15th November 2023	Upto 15.11.2023	7-8
3	8/4/2023-4CII	04.08.2023	15% on demand for FY 2023-24 on self certification upto 30th September 2023	Upto 30.09.2023	9-14
4	8/4/2022-4CII	03.05.2023	One time waiver of 30% interest on the dues and arrears of property tax pending since 2010-11 to 2020-21	Upto 31.07.2023	15-18
5	8/4/2022-4CII	10.03.2023	One time waiver of 40% interest on the dues and arrears of property tax pending since 2010-11 to 2020-21	Upto 31.03.2023	19-22
6	8/4/2022-4CII	22.02.2023	One time waiver of 40% interest on the dues and arrears of property tax pending since 2010-11 to 2020-21	Upto 28.02.2023	23-26

7	8/3/2022-4CII	30.12.2022	One time waiver of 50% interest on the dues and arrears of property tax pending since 2010-11 to 2020-21	Upto 31.01.2022	27-30
8	8/3/2022-4CII	15.09.2022	One time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since 2010-11 to 2020-21	Upto 31.12.2022	31-34
9	8/3/2022-4CII	18.01.2022	One time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since 2010-11 to 2020-21	Upto 31.03.2022	35-38
10	8/18/2021-4CII	06.12.2021	100% rebate of property tax to Private Educational Institutions	Assessment Year 2021-2022	39-44
11	14/05/2017-3CII	12.07.2021	(I) 25% waived for the assessment year 2021-22  (II) 10% rebate for the assessment year 2021-22	Upto 30.09.2021	45-48
12	14/05/2017-3CII	05.01.2021	(I) 25% one time rebate on payment of arrear 2010-11 to 2019-20	Upto 31.03.2021	49-52
13	14/05/2017-3CII	29.10.2020	(I) 25% one time rebate on payment of arrear 2010-11 to 2019-20	Upto 31.12.2020	53-56
14	14/05/2017-3CII	18.08.2020	(I) 25% one time rebate on payment of arrear 2010-11 to 2019-20	Upto 31.10.2020	57-60
15	14/05/2017-3CII	20.05.2020	(I) 25% one time rebate on payment of arrear	Upto	61-64

			2010-11 to 2019-20	31.08.2020	
16	14/05/2017-3CII	03.01.2020	(I) 10% one time Rebate on payment of arrear 2019-20	Upto 31.01.2020	65-66
17	14/05/2017-3CII	05.09.2019	(I) 10% one time Rebate on payment of arrear 2019-20	Upto 31.12.2019	67
18	14/05/2017-3CII	29.05.2018	(I) one time waiver of interest on arrears pending since 2010-11 to 2017-18  (II) 1% Rebate on cashless payment	Upto 30.06.2018	68-69
19	14/05/2017-3CII	29.06.2017	(I) 15% one time Rebate on payment of arrear 2010-11 to 2016-17  (II) one time waiver of interest on arrears pending since 2010-11 to 2016-17  (III) 1% Rebate on cashless payment	Upto 31.08.2017  Upto 31.08.2017  Upto 31.08.2017	70-71
20	14/5/2017-3CII	11.05.2017	(i) One time rebate of 15% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2016-17  (ii) one time waiver of interest on the arrears pending since year 2010-	Upto 15.06.2017	72-73

			11 to 2016-17		
21	14/5/2017-3CII	31.03.2017	(i) One time rebate of 25% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2016-17  (ii) one time waiver of interest on the arrears pending since year 2010-11 to 2016-17	Upto 30.04.2017	74-77
22	14/05/2017-3CII	27.02.2017	(I) 25% one itme Rebate on payment of arrear 2010-11 to 2016-17  (II) one time waiver of interest on arrears pending since 2010-11 to 2016-17  (II) 1% Rebate on cashless payment	Upto 31.03.2017  Upto 31.03.2017	78
23	14/05/2017-3CII	02.02.2017	(I) 25% one itme Rebate on payment of arrear 2010-11 to 2014-15  (II) 1% Rebate on cashless payment	Upto 28.02.2017	79-83
24	14/06/2015-3CII	20.11.2015	(I) 30% one time Rebate on Payment of arrear upto 2010-11 to 2012-13  (II) one time Waiver of Interest on arrears pending since 2010-11 to 2014-15	Upto 31.12.2015  Upto 31.12.2015	84-85
25	14/06/2015-3CII	08.09.2015	(I) 30% one time Rebate on Payment of arrear	Upto 30.09.2015	86-87

			upto 2010-11 to 2012-13 (II) 10% Rebate on 2015-16 payment (III) one time Waiver of Interest on arrears pending since 2010-11 to 2014-15	Upto 30.09.2015 Upto 30.09.2015	
26	14/06/2015-3CII	29.06.2015	(I) 30% one time Rebate on Payment of arrear upto 2010-11 to 2012-13 (II) 10% Rebate on 2015-16 payment (III) one time Waiver of Interest on arrears pending since 2010-11 to 2014-15	Upto 31.08.2015 Upto 31.08.2015	88-90
27	S.O 38/H.A.16/1994 /S.87/2014	03.03.2014	(I) 30% one time Rebate on Payment of arrear upto 2012-13 (II) 10% Rebate on 2013-14 payment	Upto 31.03.2014 Upto 31.03.2014	91-92
28	2/21/2013-R-II	04.12.2013	(I) 30% one time Rebate on Payment of arrear upto 2012-13 (II) 10% Rebate on 2013-14 payment	Upto 10.12.2013 Upto 10.12.2013	93-94

**HARYANA GOVERNMENT  
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

The 17<sup>th</sup> October, 2023

**No. 8/4/2023-4CII.**- In exercise of the powers conferred under clause (a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013,-


I. In para 4, for sub-para (ii) the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(ii) A one time rebate of fifteen percent shall be allowed on the principal amount of property tax arrears for the years 2010-11 to 2022-23 to those property owners who clear all the property tax arrears for the year 2010-11 to 2022-23 and also self-certify their property information on ‘Property Tax Dues Payment and No Dues Certificate Management System Portal’ by the 31<sup>st</sup> December, 2023.”

II. In para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of hundred percent of interest on the arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2022-23 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid and also self-certify their property information on ‘Property Tax Dues Payment and No Dues Certificate Management System Portal’ by the 31<sup>st</sup> December, 2023”.

  
 Deputy Municipal Commissioner,  
 Urban Local Bodies,  
 Haryana, Panchkula.

**Vikas Gupta,**  
 Commissioner and Secretary to Government, Haryana,  
 Urban Local Bodies Department.

**हरियाणा सरकार**  
**शहरी स्थानीय निकाय विभाग**  
**अधिसूचना**

दिनांक 17 अक्टूबर, 2023

संख्या.8/4/2023-4CII.—हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में,-

- I. पैरा 4 में, उप-पैरा (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
“(ii) वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए सम्पत्ति कर के बकायों की मूल राशि पर पन्द्रह प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुमत की जाएगी जो 31 दिसम्बर, 2023 तक वर्ष 2010-11 से तक के सम्पत्ति कर के सभी बकायों की अदायगी करते हैं और 'सम्पत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल' पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी करते हैं।”;
- II. पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
“(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा:

परंतु सभी करदाताओं को वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक लम्बित सम्पत्ति कर के बकायों पर सौ प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट अनुमत की जाएगी, यदि उनके बकायों का भुगतान 31 दिसम्बर, 2023 तक कर दिया जाता है और 'सम्पत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल' पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी करते हैं।”;

Atten  
11/10/23  
Deputy Municipal Commissioner,  
Urban Local Bodies,  
Haryana, Panchkula.

**विकास गुप्ता,**  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

Endst. No.8/4/2023-4CII

Dated : 17.10.2023

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery Department, Haryana, Panchkula with the request that above notification may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary). He is requested to supply 50 printed copies of the said notification to this office for record.

*[Signature]*  
Under Secretary,

for Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Endst. No.8/4/2023-4CII

Dated : 17.10.2023

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action please :-

1. Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana.
2. Director, Urban Local Bodies, Haryana, Bays No. 11-14, Sector-4, Panchkula.
3. All the District Municipal Commissioners in the State of Haryana.
4. All the Chief Executive Officers of Municipal Councils of District Headquarters in the State of Haryana.
5. All the Executive Officers/Secretaries of Municipal Councils/Committees in the State of Haryana.

*[Signature]*  
Under Secretary,

for Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Endst. No.8/4/2023-4CII

Dated : 17.10.2023

A copy of the above is forwarded to all the Presidents of Municipal Councils and Municipal Committees in the State of Haryana for information and necessary action please.

*[Signature]*  
Under Secretary,

for Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

CC:-

1. G.M. (IT), H.Q. for uploading the same on Department website.

*[Signature]*  
17/10/23  
Deputy Municipal Commissioner,  
Urban Local Bodies,  
Haryana, Panchkula.



4

**हरियाणा सरकार**  
**शहरी स्थानीय निकाय विभाग**  
**अधिसूचना**

दिनांक 17 अक्टूबर, 2023

संख्या. 8/4/2023-4CII.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में,—

- I. पैरा 4 में, उप-पैरा (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
“(ii) वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए सम्पत्ति कर के बकायों की मूल राशि पर पन्द्रह प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुमत की जाएगी जो 31 दिसम्बर, 2023 तक वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के सम्पत्ति कर के सभी बकायों की अदायगी करते हैं और 'सम्पत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल' पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी करते हैं।”;
- II. पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
“(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा:

परंतु सभी करदाताओं को वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक लम्बित सम्पत्ति कर के बकायों पर सौ प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट अनुमत की जाएगी, यदि उनके बकायों का भुगतान 31 दिसम्बर, 2023 तक कर दिया जाता है और 'सम्पत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल' पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी करते हैं।”;

Att-  
17/10/23  
Deputy Municipal Commissioner,  
Urban Local Bodies,  
Haryana, Panchkula.

**विकास गुप्ता,**  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

5

**HARYANA GOVERNMENT  
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

The 17<sup>th</sup> October, 2023

**No. 8/4/2023-4CII.**- In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013,-

I. In para 4, for sub-para (ii) the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(ii) A one time rebate of fifteen percent shall be allowed on the principal amount of property tax arrears for the years 2010-11 to 2022-23 to those property owners who clear all the property tax arrears for the year 2010-11 to 2022-23 and also self-certify their property information on ‘Property Tax Dues Payment and No Dues Certificate Management System Portal’ by the 31<sup>st</sup> December, 2023.”

II. In para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of hundred percent of interest on the arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2022-23 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid and also self-certify their property information on ‘Property Tax Dues Payment and No Dues Certificate Management System Portal’ by the 31<sup>st</sup> December, 2023”.

*Attchd*  
*17/10/23*  
Deputy Municipal Commissioner,  
Urban Local Bodies,  
Haryana, Panchkula.

**Vikas Gupta,**  
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 8/4/2023-4CII

Dated : 17.10.2023

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery Department, Haryana, Panchkula with the request that above notification may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary). He is requested to supply 50 printed copies of the said notification to this office for record.

*[Handwritten Signature]*

Under Secretary,  
for Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 8/4/2023-4CII

Dated : 17.10.2023

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action please :-

1. Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana.
2. Director, Urban Local Bodies, Haryana, Bays No. 11-14, Sector-4, Panchkula.
3. All the Commissioners of Municipal Corporations in the State of Haryana.

*[Handwritten Signature]*

Under Secretary,  
for Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 8/4/2023-4CII

Dated : 17.10.2023

A copy of the above is forwarded to all the Mayors of Municipal Corporations in the State of Haryana for information and necessary action please.

*[Handwritten Signature]*

Under Secretary,  
for Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

CC:-

1. G.M. (IT), H.Q. for uploading the same on Department website.

*Attent*  
*[Handwritten Signature]*  
17/10/23  
Deputy Municipal Commissioner,  
Urban Local Bodies,  
Haryana, Panchkula.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 176-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, OCTOBER 5, 2023 (ASVINA 13, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 अक्टूबर, 2023

**संख्या 8/4/2023-4 CII.**— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 4 में, उप-पैरा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए सम्पत्ति कर पर पन्द्रह प्रतिशत की छूट उन निर्धारितियों को अनुज्ञेय होगी जो 'सम्पत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल' पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते हैं और निर्धारण वर्ष 2023-24 तक अपने कुल सम्पत्ति कर के बकाया का भुगतान 15 नवंबर, 2023 तक करते हैं।”।

विकास गुप्ता,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

(3483)

8

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 5th October, 2023

**No. 8/4/2023-4CII.**— In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/ H.A.16/ 1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 4, for sub-para (iv), the following sub-para shall be substituted, namely:-

- “(iv) Rebate of fifteen percent on the property tax for the assessment year 2023-24 shall be admissible to those assessee who self-certify their property information on ‘Property Tax Dues Payment and No Dues Certificate Management System Portal’ and pay their total property tax dues upto the assessment year 2023-24 by the 15th November, 2023.”

VIKAS GUPTA,  
Commissioner and Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 138-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 4, 2023 (SRAVANA 13, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 अगस्त, 2023

**संख्या 8/4/2023-4CII.**— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों) अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 4 में, उप-पैरा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए सम्पत्ति कर पर पन्द्रह प्रतिशत की छूट उन निर्धारितियों को अनुज्ञेय होगी जो ‘सम्पत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल’ पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते हैं और निर्धारण वर्ष 2023-24 तक अपने कुल सम्पत्ति कर के बकाया का भुगतान 30 सितम्बर, 2023 तक करते हैं।”।

विकास गुप्ता,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

(2124)

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 4th August, 2023

**No. 8/4/2023-JCH.**— In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 4, for sub-para (iv), the following sub-para shall be substituted, namely:-

- “(iv) Rebate of fifteen percent on the property tax for the assessment year 2023-24 shall be admissible to those assessee who self-certify their property information on ‘Property Tax Dues Payment and No Dues Certificate Management System Portal’ and pay their total property tax dues upto the assessment year 2023-24 by the 30th September, 2023.”.

VIKAS GUPTA,  
Commissioner and Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 138-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 4, 2023 (SRAVANA 13, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 अगस्त, 2023

**संख्या 8/4/2023-4CII.**— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों) अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/ 1973/ धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 4 में, उप-पैरा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए सम्पत्ति कर पर पन्द्रह प्रतिशत की छूट उन निर्धारितियों को अनुज्ञेय होगी जो 'सम्पत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल' पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते हैं और निर्धारण वर्ष 2023-24 तक अपने कुल सम्पत्ति कर के बकाया का भुगतान 30 सितम्बर, 2023 तक करते हैं।"

विकास गुप्ता,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

(2126)



**HARYANA GOVERNMENT**

**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 4th August, 2023

**No. 8/4/2023-4CH.**— In exercise of the powers conferred under clause (a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, in para 4, for sub-para (iv), the following sub-para shall be substituted, namely:-

- “(iv) Rebate of fifteen percent on the property tax for the assessment year 2023-24 shall be admissible to those assessee who self-certify their property information on ‘Property Tax Dues Payment and No Dues Certificate Management System Portal’ and pay their total property tax dues upto the assessment year 2023-24 by the 30th September, 2023.”

**VIKAS GUPTA,**

Commissioner and Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 138-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 4, 2023 (SRAVANA 13, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 अगस्त, 2023

**संख्या 8/4/2023-4CH.**— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों) अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/ 1973/ धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 4 में, उप-पैरा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए सम्पत्ति कर पर पन्द्रह प्रतिशत की छूट उन निर्धारितियों को अनुज्ञेय होगी जो ‘सम्पत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल’ पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते हैं और निर्धारण वर्ष 2023-24 तक अपने कुल सम्पत्ति कर के बकाया का भुगतान 30 सितम्बर, 2023 तक करते हैं।”।

विकास गुप्ता,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

(2126)

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 4th August, 2023

**No. 8/4/2023-4CH.**— In exercise of the powers conferred under clause (a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, in para 4, for sub-para (iv), the following sub-para shall be substituted, namely:-

- “(iv) Rebate of fifteen percent on the property tax for the assessment year 2023-24 shall be admissible to those assessee who self-certify their property information on ‘Property Tax Dues Payment and No Dues Certificate Management System Portal’ and pay their total property tax dues upto the assessment year 2023-24 by the 30th September, 2023.”.

VIKAS GUPTA,  
Commissioner and Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 81-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 3, 2023 (VAISAKHA 13, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 मई, 2023

**संख्या 8/4/2023-4CII.**— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों) अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा:

परंतु वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर तीस प्रतिशत ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा 31 जुलाई, 2023 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता है।”।

विकास गुप्ता,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

(1043)

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 3rd May, 2023

**No. 8/4/2023-4CII.**— In exercise of the powers conferred under clause (a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5. for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

"(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of thirty percent of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2022-23 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto the 31st July, 2023."

VIKAS GUPTA,  
Commissioner and Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 81-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 3, 2023 (VAISAKHA 13, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 मई, 2023

**संख्या 8/4/2023-4CII.**— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/घा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

### संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/घा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में उप-पैरा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा:

परंतु वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर तीस प्रतिशत ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा 31 जुलाई, 2023 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता है।”।

विकास गुप्ता,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 3rd May, 2023

**No. 8/4/2023-4CII.**— In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

"(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of thirty percent of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2022-23 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto the 31st July, 2023."

VIKAS GUPTA,  
Commissioner and Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 50-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 10, 2023 (PHALGUNA 19, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 मार्च, 2023

**संख्या 8/4/2023-4का.**— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा:

परंतु वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर चालीस प्रतिशत ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता है।"

अरुण गुप्ता,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।



**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 10th March, 2023

**No. 8/4/2023-4CII.**— In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees). Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of forty percent of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2021-22 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto the 31st March, 2023.”

ARUN GUPTA,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 50-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 10, 2023 (PHALGUNA 19, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 मार्च, 2023

**संख्या 8/4/2023-4का.**— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों) की अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों) अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा:

परंतु वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर चालीस प्रतिशत ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता है।”।

अरुण गुप्ता,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 10th March, 2023

**No. 8/4/2023-4CII.**— In exercise of the powers conferred under clause (a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of forty percent of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2021-22 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto the 31st March, 2023.”

**ARUN GUPTA,**  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 40-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023 (PHALGUNA 3, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 फरवरी, 2023

**संख्या 8/4/2022-4CH.**— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 की खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का०आ० 86/ह०अ० 24/1973/धा० 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) अधिसूचना संख्या का०आ० 86/ह०अ० 24/1973/धा० 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा:

परंतु वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर चालीस प्रतिशत ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा 28 फरवरी, 2023 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता है।”।

अरूण गुप्ता,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 22nd February, 2023

**No. 8/4/2022-4CII.**— In exercise of the powers conferred under clause (a) of section 69 read with Sub-section (1) of Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of forty percent of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2021-22 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto the 28th February, 2023.”.

ARUN GUPTA,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 40-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023 (PHALGUNA 3, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 फरवरी, 2023

**संख्या 8/4/2022-4CII.**— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013, में तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा:

परंतु वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर चालीस प्रतिशत ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा 28 फरवरी, 2023 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता है।”।

अरुण गुप्ता,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 22nd February, 2023

**No. 8/4/2022-4CH.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of forty percent of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2021-22 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto the 28th February, 2023.”

ARUN GUPTA,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 230-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022 (PAUSA 9, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 दिसम्बर, 2022

**संख्या 8/3/2022-4क II.**— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 की खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो दिनांक प्रथम जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा, अर्थात्:—

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा:

परंतु वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर पचास प्रतिशत ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा 31 जनवरी, 2023 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता है।”

अरूण गुप्ता,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

(9412)



**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT .**

**Notification**

The 30th December, 2022

**No. 8/3/2022-4CII.-** In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 69 read with Sub-section (1) of Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from the 1st January, 2023 namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of fifty percent of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2021-22 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto the 31st January, 2023.”.

**ARUN GUPTA,**  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 230-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022 (PAUSA 9, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 दिसम्बर, 2022

**संख्या 8/4/2022-4क II.-** हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो दिनांक प्रथम जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा, अर्थात् :-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा:

परंतु वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर पचास प्रतिशत ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा 31 जनवरी, 2023 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता है।”

अरूण गुप्ता,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

(9414)

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 30th December, 2022

**No. 8/4/2022-4CII.-** In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from the 1st January, 2023 namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of fifty percent of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2021-22 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto the 31st January, 2023.”

**ARUN GUPTA,**  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 168-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2022 (BHADRA 24, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 सितम्बर, 2022

संख्या 8/4/2022-4क गा.- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013,

दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो दिनांक 15 सितम्बर, 2022 से प्रभावी होगा, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा:

परंतु वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा 31 दिसम्बर, 2022 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता है।"

अरूण कुमार गुप्ता,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

(3307)

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 15th September, 2022

**No. 8/4/2022-4CII.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, with effect from 15th September, 2022, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2021-22 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto the 31st December, 2022.”.

ARUN KUMAR GUPTA,  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 168-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2022 (BHADRA 24, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 सितम्बर, 2022

**संख्या 8/3/2022-4क II.-** हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो दिनांक 15 सितम्बर, 2022 से प्रभावी होगा, अर्थात्:-

### संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा:

परंतु वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा 31 दिसम्बर, 2022 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता है।"

अरुण कुमार गुप्ता,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

(3309)

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 15th September, 2022

**No. 8/3/2022-4CH.**- In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, with effect from 15th September, 2022, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2021-22 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto the 31st December, 2022.”

ARUN KUMAR GUPTA,  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 11-2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 18, 2022 (PAUSA 28, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जनवरी, 2022

**संख्या 8/3/2022-4कII.-** हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा:

परंतु वर्ष 2010-2011 से 2020-21 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा 31 मार्च, 2022 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता है।”।

अरुण कुमार गुप्ता,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।



**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 18th January, 2022

**No. 8/3/2022-4CII.**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A. 24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2020-21 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st March, 2022.”.

ARUN KUMAR GUPTA,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 11-2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 18, 2022 (PAUSA 28, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जनवरी, 2022

**संख्या 8/4/2022-4कII.**— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों) की अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा :

परंतु वर्ष 2010-2011 से 2020-21 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा 31 मार्च, 2022 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता है।"

अरुण कुमार गुप्ता,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 18th January, 2022

**No. 8/4/2022-4CH.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2020-21 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st March, 2022.”

ARUN KUMAR GUPTA,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 202-2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 6, 2021 (AGRAHAYANA 15, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 दिसम्बर, 2021

संख्या 8/18/2021-4CII.- हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 की खण्ड(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो दिनांक प्रथम अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 3में, उप-पैरा (ix) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(x) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए निजी शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सम्पत्ति कर पर शत-प्रतिशत छूट स्वीकार्य होगी।”।

अरुण कुमार गुप्ता,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT****URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT****Notification**

The 6th December, 2021

**No. 8/18/2021-4CII.**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 69 read with Sub-section (1) of Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 86/H.A. 24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from 01.04.2021, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 86/H.A. 24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, in para 3, after sub-para (ix), the following sub-para shall be inserted, namely:-

“(x) 100% rebate of property tax shall be admissible to Private Educational Institutions for the assessment year 2021-22.”

**ARUN KUMAR GUPTA,**  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 202-2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 6, 2021 (AGRAHAYANA 15, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 दिसम्बर, 2021

**संख्या 8/19/2021-4CII.**— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों) की अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो दिनांक प्रथम अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा, अर्थात् :-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों) की अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 3 में, उप-पैरा (ix) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(x) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए निजी शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सम्पत्ति कर पर शतप्रतिशत छूट स्वीकार्य होगी।”।

अरुण कुमार गुप्ता,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

42

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 6th December, 2021

**No. 8/19/2021-4CII.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A. 16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from 01.04.2021, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A. 16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 3, after sub-para (ix), the following sub-para shall be inserted, namely:-

“(x) 100% rebate of property tax shall be admissible to Private Educational Institutions for the assessment year, 2021-22.”.

ARUN KUMAR GUPTA,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 202-2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 6, 2021 (AGRAHAYANA 15, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 दिसम्बर, 2021

**संख्या 8/19/2021-4CH.**— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों) की अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं जो दिनांक प्रथम अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा, अर्थात् :-

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों) की अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 3 में, उप-पैरा (ix) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-  
“(x) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए निजी शैक्षणिक संस्थाओं हेतु सम्पत्ति कर पर शतप्रतिशत छूट स्वीकार्य होगी।”।

अरूण कुमार गुप्ता,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

(4047)



**HARYANA GOVERNMENT****URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT****Notification**

The 6th December, 2021

**No. 8/19/2021-4CII.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A. 16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from 01.04.2021, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A. 16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 3, after sub-para (ix), the following sub-para shall be inserted, namely:-

“(x) 100% rebate of property tax shall be admissible to Private Educational Institutions for the assessment year 2021-22.”

ARUN KUMAR GUPTA,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 111-2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 12, 2021 (ASADHA 21, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 जुलाई, 2021

संख्या 14/5/2017-3क-II.- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का० आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ०16/1994/धा०87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में :-

1. पैरा-4, में, उप-पैरा (ii) तथा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किये जायेंगे अर्थात् :-  
“(ii) निर्धारण वर्ष 2021-22 के सम्पत्ति कर पर 25 प्रतिशत माफी अनुज्ञेय की जाती है।  
(iv) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिये 10 प्रतिशत की छूट दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक है।”

एस० एन० राय,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 12th July, 2021

**No. 14/5/2017-3C-II/.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, namely:—

**Amendment**

In Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A. 16/1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 4, for sub-paras (ii) and (iv), the following sub-paras shall be substituted, namely:—

- (ii) 25% on property tax is waived for the assessment year 2021-22.
- (iv) The rebate of 10% for the assessment year 2021-22 is upto 30th September, 2021.

S. N. ROY,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 111-2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 12, 2021 (ASADHA 21, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 जुलाई, 2021

संख्या 14/5/2017-3क-II.— हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 84 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों) की अधिसूचना संख्या का० आ० 86/ह०अ० 24/1973/धा०69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का० आ० 86/ह०अ०24/1973/धा०69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में :-

1. पैरा-4, में, उप-पैरा (ii) तथा (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :-  
“(ii) निर्धारण वर्ष 2021-22 के सम्पत्ति कर पर 25 प्रतिशत माफी अनुज्ञेय की जाती है।  
(iv) निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए 10 प्रतिशत की छूट दिनांक 30 सितम्बर 2021 तक है।”

एस० एन० राय,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 12th July, 2021

**No. 14/5/2017-3C-II.**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A. 24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, namely:—

**Amendment**

In Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/ H.A.24/ 1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013, in para 4, for sub-paras (ii) and (iv), the following sub-paras shall be substituted, namely:-

- (ii) 25% on property tax is waived for the assessment year 2021-22.
- (iv) The rebate of 10% for the assessment year 2021-22 is upto 30th September, 2021.

S. N. ROY,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 4-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 26, 2021 (MAGHA 6, 1942 SAKA)

## PART-I A

### Notifications by Local Government Department

#### HARYANA GOVERNMENT

#### URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

#### Notification

The 5th January, 2021

**No. 14/5/2017-3C-II/379.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S. O. 85/H.A. 16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from 01.01.2021, namely:-

#### Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013.

1. In para 3, after sub-para (vii), the following sub-paras shall be inserted, namely:-

(viii) A one time rebate of 50% on residential properties situated in Lal Dora of villages falling in the jurisdiction of Municipal Corporations shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st March, 2021.

(ix) An exemption of 100% would be admissible to Charitable Educational Institutions, Charitable Hospitals and Schools for Children with Special Needs (CWSN) where the fees or rates equivalent to Government Schools and Hospitals are charged, including approved Colleges, Schools, Hospitals and Dispensaries if such buildings and lands or portions thereof are either owned by the Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals concerned or have been placed at the disposal of such Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals without payment of any rent. However, no exemption shall be given to any property as defined above, if any portion thereof has been constructed or used for commercial purposes.

2. In para 4, for sub-paras (ii) & (iv), the following sub-paras shall be substituted, namely:-

(ii) A one time rebate of 25% shall be allowed for the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2016-17 to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st March, 2021.

(iv) Rebate of 10% would be admissible to those assesses who pay their total property tax for the assessment year by the 31st July of that assessment year. However, the period for purpose of 10% rebate for the year 2020-21 is extended upto 31st March, 2021.

Further, 10% additional rebate shall be provided to those property owners who have deposited their property tax dues for the years 2017-18, 2018-19 and 2019-20 consecutively by 31st July of that year as a good tax payer reward for the year 2020-21. However, in case of Municipal Corporation, Gurugram the period for purpose of 10% rebate for the year 2017-18 shall be considered as 31.12.2017 instead of 31.07.2017 as the period for this purpose was extended *vide* Government order No. 14/5/2017-3C-II dated 28.11.2018.

This 10% additional rebate would be available to those tax payers who pay their yearly tax consecutively for each three year block in stipulated time in future also. Further, the date for next three year block, for the year 2020-21, shall be considered as 31.03.2021 instead of 31.07.2020.

3. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-  
(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2019-20 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st March, 2021.
4. Additional 5% rebate shall be given to property owners who will pay the property tax by auto debit system upto 31st July every year but for current year *i.e.*, 2020-21 it shall be treated as 31st March, 2021.
5. The rates of property tax for activities allied to Agriculture (*i.e.*, Dairies) and Dhabas notified *vide* Nos. 14/06/2015-3C-II, dated 12.09.2019 shall be applicable with effect from 11.10.2013.

Chandigarh:  
The 5th January, 2021.

S. N. ROY,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 4-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 26, 2021 (MAGHA 6, 1942 SAKA)

## PART-I A

### Notifications by Local Government Department

#### HARYANA GOVERNMENT

#### URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

#### Notification

The 5th January, 2021

**No. 14/5/2017-3C-II/380.**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 69 read with Sub-section (1) of Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 86/H.A. 24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from 01.01.2021, namely:-

#### Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S.O. 86/H.A. 24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013:-

1. In para 3, after sub-para (vii), the following sub-paras shall be inserted, namely:-
  - (viii) A one time rebate of 50% on residential properties situated in Lal Dora of villages falling in the jurisdiction of Municipal Councils and Committees shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st March, 2021.
  - (ix) An exemption of 100% would be admissible to Charitable Educational Institutions, Charitable Hospitals and Schools for Children with Special Needs (CWSN) where the fees or rates equivalent to Government Schools and Hospitals are charged, including approved Colleges, Schools, Hospitals and Dispensaries if such buildings and lands or portions thereof are either owned by the Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals concerned or have been placed at the disposal of such Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals without payment of any rent. However, no exemption shall be given to any property as defined above, if any portion thereof has been constructed or used for commercial purposes.
2. In para 4, for sub-paras (ii) & (iv), the following sub-paras shall be substituted, namely:-
  - (ii) A one time rebate of 25% shall be allowed for the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2016-17 to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st March, 2021.
  - (iv) Rebate of 10% would be admissible to those assesses who pay their total property tax for the assessment year by the 31st July of that assessment year. However, the period for purpose of 10% rebate for the year 2020-21 is extended upto 31st March, 2021.



Further, 10% additional rebate shall be provided to those property owners who have deposited their property tax dues for the years 2017-18, 2018-19 and 2019-20 consecutively by 31st July of that year as a good tax payer reward for the year 2020-21.

This 10% additional rebate would be available to those tax payers who pay their yearly tax consecutively for each three year block in stipulated time in future also. Further, the date for next three year block, for the year 2020-21, shall be considered as 31.03.2021 instead of 31.07.2020.

3. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-
  - (b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2019-20 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st March, 2021.
4. Additional 5% rebate shall be given to property owners who will pay the property tax by auto debit system upto 31st July every year but for current year *i.e.*, 2020-21 it shall be treated as 31st March, 2021.
5. The rates of property tax for activities allied to Agriculture (*i.e.*, Dairies) and Dhabas notified *vide* Nos. 14/06/2015-3C-II, dated 19.09.2019 shall be applicable with effect from 11.10.2013.

Chandigarh:  
The 5th January, 2021.

S. N. ROY,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 45-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2020 (KARTIKA 19, 1942 SAKA)

## PART-I A

### Notifications by Local Government Department

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

#### Notification

The 29th October, 2020

**No. 14/5/2017-3C-II/51173.**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 69 read with sub-section (1) of Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.86/H.A.24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from 01.11.2020, namely:-

#### Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No.S.O.86/H.A.24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013:-

1. In para 3, after sub-para (vii), the following sub-paras shall be inserted, namely:-
  - (viii) A one time rebate of 50% on residential properties situated in Lal Dora of villages falling in the jurisdiction of Municipal Councils and Committees shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st December, 2020.
  - (ix) An exemption of 100% would be admissible to Charitable Educational Institutions, Charitable Hospital and Schools for Children with Special Needs (CWSN) where the fees or rates equivalent to Government Schools and Hospitals are charged, including approved Colleges, Schools, Hospitals and Dispensaries if such buildings and lands or portions thereof are either owned by the Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals concerned or have been placed at the disposal of such Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals without payment of any rent. However, no exemption shall be given to any property as defined above, if any portion thereof has been constructed or used for commercial purposes.
2. In para 4, for sub-paras (ii) & (iv), the following sub-paras shall be substituted, namely:-
  - (ii) A one time rebate of 25% shall be allowed for the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2016-17 to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st December, 2020.
  - (iv) Rebate of 10% would be admissible to those assesses who pay their total property tax for the assessment year by the 31st July of that assessment year. However, the period for purpose of 10% rebate for the year 2020-21 is extended upto 31st December, 2020.

Further, 10% additional rebate shall be provided to those property owners who have deposited their property tax dues for the years 2017-18, 2018-19 and 2019-20 consecutively by 31st July of that year as a good tax payer reward for the year 2020-21.

This 10% additional rebate would be available to those tax payers who pay their yearly tax consecutively for each three year block in stipulated time in future also. Further, the date for next three year block, for the year 2020-21, shall be considered as 31.12.2020 instead of 31.07.2020.

3. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-  
(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2019-20 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st December, 2020.
4. Additional 5% rebate shall be given to property owners who will pay the property tax by auto debit system upto 31st July every year but for current year i.e., 2020-21 it shall be treated as 31st December, 2020.
5. The rates of property tax for activities allied to Agriculture (i.e., Dairies) and Dhabas notified *vide* Nos. 14/06/2015-3CII, dated 19.09.2019 shall be applicable with effect from 11.10.2013.

Chandigarh:  
The 29th October, 2020.

S. N. ROY,  
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 45-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2020 (KARTIKA 19, 1942 SAKA)

## PART-I A

### Notifications by Local Government Department

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

#### Notification

The 29th October, 2020

**No. 14/5/2017-3C-II/51172.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 87 read with sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from 01.11.2020, namely:-

#### Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013.

1. In para 3, after sub-para (vii), the following sub-paras shall be inserted, namely:-
  - (viii) A one time rebate of 50% on residential properties situated in Lal Dora of villages falling in the jurisdiction of Municipal Corporations shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st December, 2020.
  - (ix) An exemption of 100% would be admissible to Charitable Educational Institutions, Charitable Hospital and Schools for Children with Special Needs (CWSN) where the fees or rates equivalent to Government Schools and Hospitals are charged, including approved Colleges, Schools, Hospitals and Dispensaries if such buildings and lands or portions thereof are either owned by the Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals concerned or have been placed at the disposal of such Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals without payment of any rent. However, no exemption shall be given to any property as defined above, if any portion thereof has been constructed or used for commercial purposes.
2. In para 4, for sub-paras (ii) & (iv), the following sub-paras shall be substituted, namely:-
  - (ii) A one time rebate of 25% shall be allowed for the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2016-17 to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st December, 2020.
  - (iv) Rebate of 10% would be admissible to those assesses who pay their total property tax for the assessment year by the 31st July of that assessment year. However, the period for purpose of 10% rebate for the year 2020-21 is extended upto 31st December, 2020.

Further, 10% additional rebate shall be provided to those property owners who have deposited their property tax dues for the years 2017-18, 2018-19 and 2019-20 consecutively by 31st July of that year as a good tax payer reward for the year 2020-21. However, in case of Municipal Corporation, Gurugram the period for purpose of 10% rebate for the year 2017-18 shall be considered as 31.12.2017 instead of 31.07.2017 as the period for this purpose was extended vide Government order No. 14/5/2017-3C-II dated 28.11.2018.

This 10% additional rebate would be available to those tax payers who pay their yearly tax consecutively for each three year block in stipulated time in future also. Further, the date for next three year block, for the year 2020-21, shall be considered as 31.12.2020 instead of 31.07.2020.

3. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-  
(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2019-20 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st December, 2020.
4. Additional 5% rebate shall be given to property owners who will pay the property tax by auto debit system upto 31st July every year but for current year i.e., 2020-21 it shall be treated as 31st December, 2020.
5. The rates of property tax for activities allied to Agriculture (*i.e.*, Dairies) and Dhabas notified *vide* Nos. 14/06/2015-3CII, dated 12.09.2019 shall be applicable with effect from 11.10.2013.

Chandigarh:  
The 29th October, 2020.

S. N. ROY,  
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 35-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2020 (BHADRA 10, 1942 SAKA)

## PART-I A

### Notifications by Local Government Department

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

#### Notification

The 18th August, 2020

**No. 14/5/2017-3C-II/41727.**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 87 read with sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from 01.08.2020, namely:-

#### Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013.

1. In para 3, after sub-para (vii), the following sub-paras shall be inserted, namely:-

(viii) A one time rebate of 50% on residential properties situated in Lal Dora of villages falling in the jurisdiction of Municipal Corporations shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st October, 2020.

(ix) An exemption of 100% would be admissible to Charitable Educational Institutions, Charitable Hospital and Schools for Children with Special Needs (CWSN) where the fees or rates equivalent to Government Schools and Hospitals are charged, including approved Colleges, Schools, Hospitals and Dispensaries if such buildings and lands or portions thereof are either owned by the Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals concerned or have been placed at the disposal of such Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals without payment of any rent. However, no exemption shall be given to any property as defined above, if any portion thereof has been constructed or used for commercial purposes.

2. In para 4, for sub-paras (ii) & (iv), the following sub-paras shall be substituted, namely:-

(ii) A one time rebate of 25% shall be allowed for the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2016-17 to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st October, 2020.

(iv) Rebate of 10% would be admissible to those assesses who pay their total property tax for the assessment year by the 31st July of that assessment year. However, the period for purpose of 10% rebate for the year 2020-21 is extended upto 31st October, 2020.

Further, 10% additional rebate shall be provided to those property owners who have deposited their property tax dues for the years 2017-18, 2018-19 and 2019-20 consecutively by 31st July of that year as a good tax payer reward for the year 2020-21. However, in case of Municipal Corporation, Gurugram the period for purpose of 10% rebate for the year 2017-18 shall be considered as 31.12.2017 instead of 31.07.2017 as the period for this purpose was extended vide Government order No. 14/5/2017-3C-II dated 28.11.2018.

This 10% additional rebate would be available to those tax payers who pay their yearly tax consecutively for each three year block in stipulated time in future also. Further, the date for next three year block, for the year 2020-21, shall be considered as 31.10.2020 instead of 31.07.2020.

- 3. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-
  - (b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2019-20 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st October, 2020.
- 4. Additional 5% rebate shall be given to property owners who will pay the property tax by auto debit system upto 31st July every year but for current year i.e., 2020-21 it shall be treated as 31st October, 2020.
- 5. The rates of property tax for activities allied to Agriculture (i.e., Dairies) and Dhabas notified vide Nos. 14/06/2015-3CII, dated 12.09.2019 shall be applicable with effect from 11.10.2013.

Chandigarh:  
The 18th August, 2020.

S. N. ROY,  
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 35-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2020 (BHADRA 10, 1942 SAKA)

## PART-I A

### Notifications by Local Government Department

#### HARYANA GOVERNMENT

#### URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

#### Notification

The 18th August, 2020

**No. 14/5/2017-3C-II/41728.**— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 69 read with sub-section (1) of Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.86/H.A.24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from 01.08.2020, namely:-

#### Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S.O.86/H.A.24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013:-

1. In para 3, after sub-para (vii), the following sub-paras shall be inserted, namely:-
  - (viii) A one time rebate of 50% on residential properties situated in Lal Dora of villages falling in the jurisdiction of Municipal Councils and Committees shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st October, 2020.
  - (ix) An exemption of 100% would be admissible to Charitable Educational Institutions, Charitable Hospital and Schools for Children with Special Needs (CWSN) where the fees or rates equivalent to Government Schools and Hospitals are charged, including approved Colleges, Schools, Hospitals and Dispensaries if such buildings and lands or portions thereof are either owned by the Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals concerned or have been placed at the disposal of such Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals without payment of any rent. However, no exemption shall be given to any property as defined above, if any portion thereof has been constructed or used for commercial purposes.
2. In para 4, for sub-paras (ii) & (iv), the following sub-paras shall be substituted, namely:-
  - (ii) A one time rebate of 25% shall be allowed for the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2016-17 to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st October, 2020.



(iv) Rebate of 10% would be admissible to those assesses who pay their total property tax for the assessment year by the 31st July of that assessment year. However, the period for purpose of 10% rebate for the year 2020-21 is extended upto 31st October, 2020.

Further, 10% additional rebate shall be provided to those property owners who have deposited their property tax dues for the years 2017-18, 2018-19 and 2019-20 consecutively by 31st July of that year as a good tax payer reward for the year 2020-21.

This 10% additional rebate would be available to those tax payers who pay their yearly tax consecutively for each three year block in stipulated time in future also. Further, the date for next three year block, for the year 2020-21, shall be considered as 31.10.2020 instead of 31.07.2020.

- 3. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-
  - (b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2019-20 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st October, 2020.
- 4. Additional 5% rebate shall be given to property owners who will pay the property tax by auto debit system upto 31st July every year but for current year i.e., 2020-21 it shall be treated as 31st October, 2020.
- 5. The rates of property tax for activities allied to Agriculture (i.e., Dairies) and Dhabas notified *vide* Nos. 14/06/2015-3CII, dated 19.09.2019 shall be applicable with effect from 11.10.2013.

Chandigarh:  
The 18th August, 2020.

S. N. ROY,  
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 23-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 9, 2020 (JYAISTHA 19, 1942 SAKA)

## PART-I A

### Notifications by Local Government Department

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

#### Notification

The 20th May, 2020

**No. 14/5/2017-3C-II/29052.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S. O. 85/H. A. 16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely :-

#### Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S. O./H.A. 16/1944/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013.

1. In para 3, after sub-para (vii), the following sub-paras shall be inserted, namely :-

(viii) A one time rebate of 50% on residential properties situated in Lal Dora of villages falling in the jurisdiction of Municipal Corporations shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st August, 2020.

(ix) An exemption of 100% would be admissible to Charitable Educational Institutions, Charitable Hospital and Schools for children with Special Needs (CWSN) where the fees or rates equivalent to Government Schools and Hospitals are charged, including approved Colleges, Schools, Hospitals and Dispensaries if such buildings and lands or portions thereof are either owned by the Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals concerned or have been placed at the disposal of such Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals without payment of any rent. However, no

exemption shall be given to any property as defined above, if any portion thereof has been constructed or used for commercial purposes.

2. In para 4, for sub-paras (ii) & (iv), the following sub-paras shall be substituted, namely :-
  - (ii) A one time rebate of 25% shall be allowed for the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2016-17 to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st August, 2020.
  - (iv) Rebate of 10% would be admissible to those assesses who pay their total property tax for the assessment year by the 31st July of that assessment year. Further, 10% additional rebate shall be provided to those property owners who have deposited their property tax dues for the years 2017-18, 2018-19 and 2019-20 consecutively by 31st July of that year as a good tax payer reward for the year 2020-21. This 10% additional rebate would be available to those tax payers who pay their yearly tax consecutively for each three year block in stipulated time in future also.
3. In para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely :-
  - (b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2019-20 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st August, 2020.
4. Additional 5% rebate shall be given to property owners who will pay the property tax by auto debit system upto 31st July every year.
5. The rates of property tax for activities allied to Agriculture (i.e. Dairies) and Dhabas notified *vide* Nos. 14/06/2015-3CII, dated 12-09-2019 shall be applicable with effect from 11-10-2013.

Chandigarh:  
The 20th May, 2020.

S. N. ROY,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 23-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 9, 2020 (JYAISTHA 19, 1942 SAKA)

## PART-I A

### Notifications by Local Government Department

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

#### Notification

The 20th May, 2020

**No. 14/5/2017-3C-II/29053.**— In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Section 69 read with Sub-section (1) of Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S. O. 86/H. A. 24/1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely :-

#### Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S. O. 86/H.A. 24/ 1973/S. 69/2013, dated the 11th October, 2013.

1. In para 3, after sub-para (vii), the following sub-paras shall be inserted, namely :-

(viii) A one time rebate of 50% on residential properties situated in Lal Dora of villages falling in the jurisdiction of Municipal Councils and Committees shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st August, 2020.

(ix) An exemption of 100% would be admissible to Charitable Educational Institutions, Charitable Hospital and Schools for children with Special Needs (CWSN) where the fees or rates equivalent to Government Schools and Hospitals are charged, including approved Colleges, Schools, Hospitals and Dispensaries if such buildings and lands or portions thereof are either owned by the Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals concerned or have been placed at the disposal of such Charitable Educational Institutions and Charitable Hospitals without payment of any rent. However, no exemption shall be given to any property as defined above, if any portion thereof has been constructed or used for commercial purposes.

2. In para 4, for sub-paras (ii) & (iv), the following sub-paras shall be substituted, namely :-
  - (ii) A one time rebate of 25% shall be allowed for the property tax dues/arrears for the years 2010-11 to 2016-17 to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the years 2010-11 to 2019-20 upto 31st August, 2020.
  - (iv) Rebate of 10% would be admissible to those assesses who pay their total property tax for the assessment year by the 31st July of that assessment year. Further, 10% additional rebate shall be provided to those property owners who have deposited their property tax dues for the years 2017-18, 2018-19 and 2019-20 consecutively by 31st July of that year as a good tax payer reward for the year 2020-21. This 10% additional rebate would be available to those tax payers who pay their yearly tax consecutively for each three year block in stipulated time in future also.
3. In para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely :-
  - (b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2019-20 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st August, 2020.
4. Additional 5% rebate shall be given to property owners who will pay the property tax by auto debit system upto 31st July every year.
5. The rates of property tax for activities allied to Agriculture (i.e. Dairies) and Dhabas notified *vide* Nos. 14/06/2015-3CII, dated 12-09-2019 shall be applicable with effect from 11-10-2013.

Chandigarh:  
The 20th May, 2020.

S. N. ROY,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 2-2020/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JANUARY 3, 2020 (PAUSA 13, 1941 SAKA)

### HARYANA GOVERNMENT URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

#### Notification

Dated 3rd January, 2020

**No. 14/5/2017-3C-II.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from 01st January, 2020, namely:-

#### Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013.

1. In para 4 for sub-para (iv), the following sub-para shall be substituted namely:-  
(iv) a rebate of 10% on property tax for the assessment year 2019-2020 shall be admissible to those assess who deposit the due tax by 31st January, 2020.
2. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-  
(b) in case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged;

Provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2018-19 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st January, 2020.

Chandigarh:  
The 03rd January, 2020.

V. UMASHANKAR,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

57611—C.S.—H.G.P., Chd.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 2-2020/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JANUARY 3, 2020 (PAUSA 13, 1941 SAKA)

### HARYANA GOVERNMENT

#### URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

#### Notification

Dated 3rd January, 2020

**No. 14/5/2017-3C-II.**— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 69 read with Sub-section (1) of Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013 with effect from 01st January, 2020, namely:-

#### Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013.

1. In para 4 for sub-para (ii), the following sub-para shall be substituted namely:-  
(iv) a rebate of 10% on property tax for the assessment year 2019-2020 shall be admissible to those assess who deposit the due tax by 31st January, 2020.
2. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-  
(b) in case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged;

Provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2018-19 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st January, 2020.

Chandigarh:  
The 03rd January, 2020.

V. UMASHANKAR,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

57611—C.S.—H.G.P., Chd.





# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 151-2019/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2019 (BHADRA 14, 1941 SAKA)

### HARYANA GOVERNMENT URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

#### Notification

The 5th September, 2019

**No. 14/5/2017- 3C-II.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely:-

#### Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S.O./H.A.16/1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013-

1. In para 4 for sub-para (iv), the following sub-para shall be substituted namely:-  
(iv) a rebate of 10% on property tax for the assessment year 2019-2020 shall be admissible to those assess who deposit the due tax by 31.12.2019.
2. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-  
(b) in case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged;

Provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2018-19 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31.12.2019.

ANAND M. SHARAN,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

57343—C.S.—H.G.P., Chd.

(3093)





# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 91-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 29, 2018 (JYAISTHA 8, 1940 SAKA)

**हरियाणा सरकार**

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 29 मई 2018

**संख्या 14/5/2017-3-क-II.**— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16) की धारा 149 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013 दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन तुरन्त प्रभाव से करते हैं, अर्थात्—

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर 2013 में,—

1. पैरा 5 में, उप पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—  
(ख) देर से अदायगी की दशा में, प्रतिमाह एक 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज या उसका भाग प्रभारित किया जाएगा — परन्तु वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक के लिए सम्पत्ति कर के बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि 30-06-2018 तक उनके बकाया भुगतान कर दिए जाते हैं।
2. जो सम्पत्ति मालिक सम्पत्ति कर का भुगतान कैशलैस तरीके से करवायेगा, उसे 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

आनन्द एम० शरण,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 29th May, 2018

**No. 14/5/2017-3C-II.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.85/H.A.16/1994/ S.O.87/2013, dated the 11th October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S.O. /H.A. 16/ 1994/ S. 87/ 2013, dated the 11th October, 2013,—

1. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-

(b) in case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged: Provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2017-18 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 30.06.2018.

2. 1% rebate shall be given to property owner who will pay the property tax by cashless system.

ANAND M. SHARAN,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

**HARYANA GOVERNMENT  
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

**Dated 29.06.2017**

No. 14/5/2017- 3 C II .- In exercise of the powers conferred by clause(a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O.86/H.A.24/1973/S. 69/2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) notification no. S.O.86/H.A.24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013, -

1. In para 4, for sub-para (ii), shall be substituted, namely:-  
 "(ii) A one time rebate of 15% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the years 2010-11 to 2016-17 extend the limit upto 14<sup>th</sup> July, 2017.
2. In para 5, for sub-para (b),the following sub para shall be substituted, namely:-  
 (b) in case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged: Provided that one time waiver of interest on the arrears of Property tax pending since year 2010-11 to 2016-17 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31<sup>st</sup> August, 2017.
3. 1% rebate shall be given to property owner who will pay the property tax by cashless system.

**Anand M. Sharan,**  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department

Endst. No. 14/5/2017- 3 C II

Dated 30.06.2017

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery Department, Haryana, Chandigarh with the request that above notification (both in Hindi and English) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary). He is requested to supply 150 printed copies of the said notification to this office for record.

Superintendent Committee-II  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 14/5/2017- 3 C II

Dated 30.06.2017

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana.
2. Director, Urban Local Bodies, Haryana, Bays No. 11-14, Sector-4, Panchkula.
3. All Deputy Commissioner, Haryana.
4. All Sub Divisional Officer(Civil), Haryana.
5. All President/E.O./secretary, Municipal Council/Committee, Haryana.

Superintendent Committee-II  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Despatched  
dated 30/6/17

-114- 71

**HARYANA GOVERNMENT  
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Dated 29.06.2017

No. 14/5/2017- 3 C II .- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) notification no. S.O./H.A.16/1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013, -


1. In para 4, for sub-para (ii), shall be substituted, namely:-  
"(ii) A one time rebate of 15% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the years 2010-11 to 2016-17 extend the limit upto 14<sup>th</sup> July, 2017.
2. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-  
(b) in case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged: Provided that one time waiver of interest on the arrears of Property tax pending since year 2010-11 to 2016-17 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31<sup>st</sup> August, 2017.
3. 1% rebate shall be given to property owner who will pay the property tax by cashless system.

**Anand M. Sharan,**  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department

Endst. No. 14/5/2017- 3 C II

Dated 30.06.2017

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery Department, Haryana, Chandigarh with the request that above notification (both in Hindi and English) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary). He is requested to supply 150 printed copies of the said notification to this office for record.


  
Superintendent Committee-II  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department:

Endst. No. 14/5/2017- 3 C II

Dated 30.06.2017

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana.
2. Director, Urban Local Bodies, Haryana, Bays No. 11-14, Sector-4, Panchkula.
3. All Deputy Commissioner, Haryana.
4. Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad, Gurugram, Hisar, Panipat, Karnal, Yamuna Nagar, Panchkula, Ambala, Rohtak, Sonapat.

  
Superintendent Committee-II  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Jespatched  
ted  
30/6/17

**HARYANA GOVERNMENT  
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Dated 11.05.2017

No. 14/5/2017- 3 C II .- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) notification no. S.O./H.A.16/1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013, -

1. In para 4, for sub-para (ii), shall be substituted, namely:-

"(ii) A one time rebate of 15% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the years 2010-11 to 2016-17 extend the limit upto 15<sup>th</sup> June, 2017.

2. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-

(b) in case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged: Provided that one time waiver of interest on the arrears of Property tax pending since year 2010-11 to 2016-17 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid extend the limit upto 15<sup>th</sup> June, 2017.


3. 1% rebate shall be given to property owner who will pay the property tax by cashless system.

**Anand M. Sharan,**  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department

Endst. No. 14/5/2017- 3 C II

Dated 12.05.2017

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery Department, Haryana, Chandigarh with the request that above notification (both in Hindi and English) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary). He is requested to supply 150 printed copies of the said notification to this office for record.


  
Superintendent Committee-II  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 14/5/2017- 3 C II

Dated 12.05.2017

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

- 1 Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana.
- 2 Director, Urban Local Bodies Haryana, Bays No. 11-14, Sector-4, Panchkula.
- 3 All Deputy Commissioner, Haryana.
- 4 Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad, Gurgaon, Hisar, Panipat, Karnal, Yamuna Nagar, Panchkula, Ambala, Rohtak, Sonapat.

  
Superintendent Committee-II  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

**HARYANA GOVERNMENT  
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Dated 11.05.2017

No. 14/5/2017- 3 C II:- In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/ S.69/ 2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification no. S.O. 86/ H.A.24/1973/ S.69/ 2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013, -

1. In para 4, for sub-para (ii), shall be substituted, namely:-  
 "(ii) A one time rebate of 15% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the years 2010-11 to 2016-17 extend the limit upto 15<sup>th</sup> June, 2017.
2. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-  
 (b) in case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged: Provided that one time waiver of interest on the arrears of Property tax pending since year 2010-11 to 2016-17 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid extend the limit upto 15<sup>th</sup> June, 2017.
3. 1% rebate shall be given to property owner who will pay the property tax by cashless system.

**Anand M. Sharan,**  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 14/5/2017- 3 C II

Dated 12.05.2017

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery Department, Haryana, Chandigarh with the request that above notification (both in Hindi and English) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary). He is requested to supply 150 printed copies of the said notification to this office for record.

**Superintendent Committee-II**  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 14/5/2017- 3 C II

Dated 12.05.2017

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

- 1 Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana.
- 2 Director, Urban Local Bodies Haryana, Bays No. 11-14, Sector-4, Panchkula.
- 3 All Deputy Commissioner, Haryana.
- 4 All Sub Divisional Officer (Civil) Haryana.
- 5 All President/E.O/Secretary, Municipal Council/Committees, Haryana.

**Superintendent Committee-II**  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Despatched  
Dated 13/5/17  
Issue Branch

-93- 74

**HARYANA GOVERNMENT  
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Dated 31.03.2017

No. 14/5/2017- 3 C II .- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) notification no. S.O./H.A.16/1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013, -

1. In para 4, for sub-para (ii), shall be substituted, namely:-  
"(ii) A one time rebate of 25% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the years 2010-11 to 2016-17 extend the limit upto 30<sup>th</sup> April, 2017.
2. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-  
(b) in case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged: Provided that one time waiver of interest on the arrears of Property tax pending since year 2010-11 to 2016-17 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid extend the limit upto 30<sup>th</sup> April, 2017.
3. 1% rebate shall be given to property owner who will pay the property tax by cashless system.


**Anand M. Sharan,**

Principal Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department

Endst. No. 14/5/2017- 3 C II

Dated 31.03.2017

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery Department, Haryana, Chandigarh with the request that above notification (both in Hindi and English) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary). He is requested to supply 150 printed copies of the said notification to this office for record.


  
Superintendent Committee-II  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 14/5/2017- 3 C II

Dated 31.03.2017

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

- 1 Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana.
- 2 Director, Urban Local Bodies Haryana, Bays No. 11-14, Sector-4, Panchkula.
- 3 All Deputy Commissioner, Haryana.
- 4 Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad, Gurgaon, Hisar, Panipat, Karnal, Yamuna Nagar, Panchkula, Ambala, Rohtak, Sonapat.

  
Superintendent Committee-II  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 31.3.2017

संख्या 14/5/2017- 3 क पा.- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16), की धारा 149 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0 आ0 85/ह0 अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्: ---

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0 आ0 85/ह0 अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में,-

1. पैरा 4 में, उप पैरा (ii), के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किये जाएंगे:-

“(ii) 25 प्रतिशत की एक मुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुज्ञात की जाएगी, जो वर्ष 2010-11 से 2016-17 के लिए अपने सभी देय कर/बकाया 30.04.2017 तक चुका देंगे।

2. पैरा 5 में, उप पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(ख) देर से अदायगी की दशा में, प्रतिमास एक 1.5% की दर से ब्याज या उसका भाग प्रभारित किया जाएगा - परन्तु वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक के लिए सम्पत्ति कर के बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि 30-04-2017 तक उनके बकाया भुगतान कर दिए जाते हैं।

3. जो सम्पत्ति मालिक सम्पत्ति कर का भुगतान केशलैस तरीके से करवायेगा, उसे 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

आनन्द एम0 शरण,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।



155-

76

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**  
**NOTIFICATION**

Dated 31.03.2017

No. 14/5/2017-3 C II:- In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/ S.69/2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification no. S.O. 86/H.A.24/1973/ S.69/2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013 -


1. In para 4, for sub-para (ii), shall be substituted, namely:-  
"(ii) A one time rebate of ~~25%~~<sup>20%</sup> shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the years 2010-11 to 2016-17 extend the limit upto 30<sup>th</sup> April, 2017.
2. In para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-  
(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged: Provided that one time waiver of interest on the arrears of Property tax pending since year 2010-11 to 2016-17 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid extend the limit upto 30<sup>th</sup> April, 2017
3. 1% rebate shall be given to property owner who will pay the property tax by cashless system

**Anand M. Sharan,**  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 14/5/2017-3 C II

Dated 31.03.2017

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery Department, Haryana, Chandigarh with the request that above notification (both in Hindi and English) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary). He is requested to supply 150 printed copies of the said notification to this office for record

  
Superintendent Committee-II  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 14/5/2017-3 C II

Dated 31.03.2017

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana.
2. Director, Urban Local Bodies Haryana, Bays No. 11-14, Sector-4 Panchkula.
3. All Deputy Commissioner, Haryana
4. All Sub Divisional Officer (Civil) Haryana
5. All President/E.O/Secretary Municipal Council/Committees, Haryana

  
Superintendent Committee-II

हरियाणा सरकार  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 31.03.2017

संख्या 14/5/2017-3 का भाग - हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या कां० आ० 86/80 आ० 24/1973/घा० 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।  
अर्थात् —

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या कां० आ० 86/80 आ० 24/1973/घा० 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में—

1. पैरा 4 में, उप पैरा (ii), के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किये जाएंगे—

(ii) <sup>20</sup> ~~25~~ प्रतिशत की एक मुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुज्ञात की जाएगी, जो वर्ष 2010-11 से 2016-17 के लिए अपने सभी देय कर/बकाया 30-04-2017 तक चुका दें।

2. पैरा 5 में, उप पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा - अर्थात् :-

(ख) देर से अदायगी की दशा में, प्रतिमास एक 1.5% की दर से ब्याज का उसका भाग प्रभावित किया जाएगा - परन्तु वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक के लिए सम्पत्ति कर के बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी का दाताओं को अनुज्ञात होगा, यदि 30.04.2017 तक उनके बकाया भुगतान कर दिए जाते हैं।

3. जो सम्पत्ति मालिक सम्पत्ति कर का भुगतान केशलस तरीके से करवायेगा, उसे 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

आनन्द एम० शरण,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

X

HARYANA GOVERNMENT  
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT  
NOTIFICATION

78

Dated 27.2.2017

No. 14/5/2017- 3 C II - In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 68 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/ S.69/ 2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013 with immediate effect, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification no. S.O. 86/H.A.24/1973/ S.69/ 2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013, -


1. In para 4, for sub-para (A), shall be substituted, namely:-  
\*(ii) A one time rebate of 25% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the years 2010-11 to 2016-17 upto 31<sup>st</sup> March, 2017.
2. In para 5, for sub-para (b) the following sub para shall be substituted, namely:  
(b) in case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged: Provided that one time waiver of interest on the arrears of Property tax pending since year 2010-11 to 2016-17 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31<sup>st</sup> March, 2017.
3. 1% rebate shall be given to property owner who will pay the property tax by cashless system.

Anand M. Sharan,  
Principal Secretary to Government, Haryana  
Urban Local Bodies Department

Dated 27.2.2017

Endst. No. 14/5/2017- 3 C II

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery Department, Haryana, Chandigarh with the request that above notification (both in Hindi and English) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary). He is requested to supply 150 printed copies of the said notification to this office for record.

  
Superintendent Committee-II  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

86- 79

(TO BE SUBSTITUTE BEARING SAME NUMBER AND DATE)

**HARYANA GOVERNMENT  
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT  
NOTIFICATION**

Dated 2.2.2017.

No. 14/5/2017- 3 C II :- In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/H.A.24/1973/ S.69/ 2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013 with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification no. S.O. 86/H.A.24/1973/ S.69/ 2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013, -


1. In para 4, for sub-para (ii), shall be substituted, namely:-  
"(ii) A one time rebate of 25% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the years 2010-11 to 2016-17 upto 28<sup>th</sup> February, 2017.
2. In para 5, for sub-para (b), the following sub para shall be substituted, namely:-  
(b) in case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged: Provided that one time waiver of interest on the arrears of Property tax pending since year 2010-11 to 2016-17 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 28.02.2017.
3. Whose Property Owner payment of Property Tax by cashless system 1% rebate to be given.

**Anand M. Sharan,**  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 14/5/2017- 3 C II

Dated 2.2.2017

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery Department, Haryana, Chandigarh with the request that above notification (both in Hindi and English) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary). He is requested to supply 150 printed copies of the said notification to this office for record.

  
**Superintendent Committee-II**  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.




Endst. No. 14/5/2017- 3 C II

Dated 2.2.2017

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

- 1 ✓ Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana.
- 2 Director, Urban Local Bodies Haryana, Bays No. 11-14, Sector-4, Panchkula.
- 3 All Deputy Commissioner, Haryana.
- 4 All Sub Divisional Officer (Civil) Haryana.
- 5 All President/E.O/Secretary, Municipal Council/Committees, Haryana.

  
Superintendent Committee-II  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

(TO BE SUBSTITUTE BEARING SAME NUMBER AND DATE)

हरियाणा सरकार  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 2.2.2017

संख्या 14/5/2017- 3 का 11 - हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0 आ0 86/ह0 अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् --

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0 आ0 86/ह0 अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में,-

1. पैरा 4 में, उप पैरा (ii), के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किये जाएंगे:-

"(ii) 25 प्रतिशत की एक मुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुज्ञात की जाएगी, जो वर्ष 2010-11 से 2016-17 के लिए अपने सभी देय कर/बकाया 28-2-2017 तक चुका देंगे।

2. पैरा 5 में, उप पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(ख) देर से अदायगी की दशा में, प्रतिमास एक 1.5% की दर से ब्याज या उसका भाग प्रभारित किया जाएगा - परन्तु वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक के लिए सम्पत्ति कर के बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि 28.02.2017 तक उनके बकाया भुगतान कर दिए जाते हैं।

3. जो सम्पत्ति मालिक सम्पत्ति कर का भुगतान कौशलैस तरीके से करवायेगा, उसे 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

आनन्द एम0 शरण,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

(TO BE SUBSTITUTE BEARING SAME NUMBER AND DATE)

हरियाणा सरकार  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 2.2.2017

संख्या 14/5/2017-3 क.पा.- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16), की धारा 149 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0 आ0 85/ह0 अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्: —

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0 आ0 85/ह0 अ0 16/1994/धा0 87/2013; दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में,—

1. पैरा 4 में, उप पैरा (ii), के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किये जाएंगे:—

“(ii) 25 प्रतिशत की एक मुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुज्ञात की जाएगी, जो वर्ष 2010-11 से 2016-17 के लिए अपने सभी देय कर/बकाया 28-2-2017 तक चुका देंगे।

2. पैरा 5 में, उप पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(ख) देर से अदायगी की दशा में, प्रतिमास एक 1.5% की दर से ब्याज या उसका भाग प्रभारित किया जाएगा - परन्तु वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक के लिए सम्पत्ति कर के बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि 28.02.2017 तक उनके बकाया भुगतान कर दिए जाते हैं।

3. जो सम्पत्ति मालिक सम्पत्ति कर का भुगतान कैशलेस तरीके से करवायेगा, उसे 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

आनन्द एम0 शरण,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

(TO BE SUBSTITUTE BEARING SAME NUMBER AND DATE)

हरियाणा सरकार  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 2.2.2017

संख्या 14/5/2017-3 क पा.- हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16), की धारा 149 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का० आ० 85/ह० अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्: ---

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का० आ० 85/ह० अ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में-

1. पैरा 4 में, उप पैरा (ii), के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किये जाएंगे:-  
“(ii) 25.प्रतिशत की एक मुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुज्ञात की जाएगी, जो वर्ष 2010-11 से 2016-17 के लिए अपने सभी वेथ कर/बकाया 28-2-2017 तक चुका देंगे।
2. पैरा 5 में, उप पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
(ख) देर से अदायगी की दशा में, प्रतिमास एक 1.5% की दर से ब्याज या उसका भाग प्रभारित किया जाएगा - परन्तु वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक के लिए सम्पत्ति कर के बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि 28.02.2017 तक उनके बकाया भुगतान कर दिए जाते हैं।
3. जो सम्पत्ति मालिक सम्पत्ति कर का भुगतान कौशलैस तरीके से करवायेगा, उसे 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

आनन्द एम० शरण,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।



**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**  
**(COMMITTEES)**

**Notification**

The 20th November, 2015.

**No.14/6/2015-3CII.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification no. S.O.85/ H.A.16/ 1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 :—

1. In para 4, for sub paras (ii) and (iii), the following sub-para shall be substituted namely:-
  - (ii) A one time rebate of 30% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the year 2010-11 to 2012-13 upto 31st December, 2015.
  - (iii) Those who have already deposited the tax, the excess amount, if any, shall be adjusted against future property tax liabilities without interest provided they clear all the dues including the tax for the year 2015-16 upto 31st December, 2015.
2. In para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5 % per month or part thereof shall be charged: Provided that one time waiver of interest on the arrears of Property Tax pending since years 2010-11 to 2014-15 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st December, 2015.

DR. MAHAVIR SINGH,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**  
**(COMMITTEES)**

**Notification**

The 20th November, 2015.

**No.14/6/2015-3CII.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification no. S.O.85/ H.A.16/ 1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013 :—

1. In para 4, for sub paras (ii) and (iii), the following sub-para shall be substituted namely:-
  - (ii) A one time rebate of 30% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the year 2010-11 to 2012-13 upto 31st December, 2015.
  - (iii) Those who have already deposited the tax, the excess amount, if any, shall be adjusted against future property tax liabilities without interest provided they clear all the dues including the tax for the year 2015-16 upto 31st December, 2015.
2. In para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5 % per month or part thereof shall be charged: Provided that one time waiver of interest on the arrears of Property Tax pending since years 2010-11 to 2014-15 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st December, 2015.

DR. MAHAVIR SINGH,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

56

HARYANA GOVERNMENT  
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT  
(COMMITTEES)  
NOTIFICATION

The 8<sup>th</sup> September, 2015

No. 14/6/2015-3CII :- In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 86/ H.A.24/1973/ S.69/ 2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification no. S.O. 86/ H.A.24/1973/ S.69/ 2013, dated the 11<sup>th</sup> October, 2013, -

1. In para 4, for sub-para (ii), (iii) and (iv), the following sub-para shall be substituted, namely:-

- (ii) A one time rebate of 30% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the years 2010-11 to 2012-13 upto 30<sup>th</sup> September, 2015.
- (iii) Those who have already deposited the tax, the excess amount, if any, shall be adjusted against their future property tax liabilities, without any interest, provided they clear all the dues, including the property tax for the year 2015-16 upto 30<sup>th</sup> September, 2015.
- (iv) Rebate of 10% would be admissible to those assesses who pay their total tax for the assessment year by the 31st July of that assessment year. For the year 2015-16 rebate of 10% shall be admissible to those assesses who deposit the due tax upto 30<sup>th</sup> September, 2015.

2. In para 5 for sub-para (b), the following clause shall be substituted, namely

"(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged. Provided that one time waiver of interest on the arrears of Property Tax pending since years 2010-11 to 2014-15 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 30<sup>th</sup> September, 2015."

Pankaj Agarwal  
Special Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

Endst: No. 14/6/2015-3CII

Dated : 08.09.2015

A copy is forwarded to the Computer Printing and Stationery Department, Haryana Chandigarh with the request that above notification (both in Hindi and English) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra -ordinary). He is requested to supply 150 printed copies of the said notification to this office for record

*[Signature]*  
Superintendent Committee-II  
for Special Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department

Chandigarh with the request that the above notification (both in Hindi and English) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra -ordinary). He is requested to supply 150 printed copies of the said notification to this office for record.

*[Signature]*  
Superintendent Committee-II,  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

- 57 -

Endst No. 14/6/2015-3CII

Dated : 08.09.2015

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana.
2. Director, Urban Local Bodies Haryana. Bays No.11-14, Sector-4, Panchkula.
3. All Deputy Commissioner, Haryana.
4. All Sub Divisional Officers (Civil), Haryana.
5. All President/E O/Secretary, Municipal Council/Committee, Haryana.

*R. Singh*  
Superintendent Committee-II  
for Special Secretary to Government, Haryana  
Urban Local Bodies Department.

Chandigarh with the request that the above notification (both in Hindi and English) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra -ordinary). He is requested to supply 150 printed copies of the said notification to this office for record.

*R. Singh*  
Superintendent Committee-II,  
for Principal Secretary to Govt. Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

**हरियाणा सरकार**

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 29 जून, 2015

**संख्या 14/5/2015-3क-ग।-** हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का0 आ0 86/ह0 अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् —

**संशोधन**

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियों), अधिसूचना संख्या का0आ0 86/ह0अ0 24/1973/धा0 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013में,—

1. पैरा 4 में, उप पैरा (ii), (iii) तथा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरे प्रतिस्थापित किये जाएंगे—
  - “(ii) 30 प्रतिशत की एक मुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुज्ञात की जाएगी, जो वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए अपने सभी देय कर/बकाया 31 अगस्त, 2015 तक चुका देंगे।
  - (iii) जिन्होंने कर पहले ही जमा करवा दिया है, अधिक राशि यदि कोई हो, किसी ब्याज के बिना, उनके भविष्य सम्पत्ति कर दायित्वों के विरुद्ध समायोजित कर दी जाएगी, बशर्तें वे वर्ष 2015-16 के लिए 31-8-2015 तक सम्पत्ति कर सहित सभी देय 31-8-2015 तक चुका दें।
  - (iv) 10 प्रतिशत की छूट उन कर निर्धारितियों को अनुज्ञय होगी जो उक्त निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई तक निर्धारण वर्ष के लिए अपने कुल कर का भुगतान करतें हैं। वर्ष 2015-16 के लिए 10 प्रतिशत की छूट उन निर्धारितियों को अनुज्ञय होगी जो देय कर 31-8-2015 तक जमा करवा देते हैं। दाताओं को दी जाएगी, जो बकाया कर की राशि 31 अगस्त, 2015 तक जमा करवा देंगे।
2. पैरा 5 में, उप पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
 

“(ख) देर से अदायगी की दशा में, प्रतिमास 1.5% की दर से ब्याज या उसका भाग प्रभारित किया जाएगा— परन्तु वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के लिए सम्पत्ति कर के बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि 31 अगस्त, 2015 तक उनके बकाया भुगतान कर दिये जाते हैं।”

डॉ० महावीर सिंह,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 29th June, 2015

**No.14/5/2015-3CII.—** In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 69 read with Sub-section (1) of Section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 86/ H.A.24/1973/ S.69/ 2013, dated the 11th October, 2013, with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 86/ H.A.24/1973/ S.69/ 2013, dated the 11th October, 2013, -

1. In para 4, for sub-paras (ii), (iii) and (iv), the following sub-paras shall be substituted, namely:-
  - “(ii) A one time rebate of 30% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the years 2010-11 to 2012-13 upto 31st August, 2015.

- (iii) Those who have already deposited the tax, the excess amount, if any, shall be adjusted against their future property tax liabilities, without any interest, provided they clear all the dues, including the property tax for the year 2015-16 upto 31st August, 2015.
- (iv) Rebate of 10% would be admissible to those assesses who pay their total tax for the assessment year by the 31st July of that assessment year. For the year 2015-16, a rebate of 10 % shall be admissible to those assesses who deposit the due tax upto 31st August, 2015."
2. In para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:—
- "(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged: Provided that one time waiver of interest on the arrears of Property Tax pending since years 2010-11 to 2014-15 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st August, 2015."

DR. MAHAVIR SINGH,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

### हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

### अधिसूचना

दिनांक 29 जून, 2015

**संख्या 14/6/2015-3क-ग।-** हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 16), की धारा 149 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

### संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का0आ0 85/ह0अ0 16/1994/धा0 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में,—

- पैरा 4 में, उप पैरा (ii), (iii) तथा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरे प्रतिस्थापित किये जाएंगे:—
  - 30 प्रतिशत की एक मुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुज्ञात की जाएगी, जो वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए अपने सभी देय कर/बकाया 31 अगस्त, 2015 तक चुका देंगे।
  - जिन्होंने कर पहले ही जमा करवा दिया है, अधिक राशि यदि कोई हो, किसी ब्याज के बिना, उनके भविष्य सम्पत्ति कर दायित्वों के विरुद्ध समायोजित कर दी जाएगी, बशर्ते वे वर्ष 2015-16 के लिए 31-8-2015 तक सम्पत्ति कर सहित सभी देय 31-8-2015 तक चुका दें।
  - 10 प्रतिशत की छूट उन कर निर्धारितियों को अनुज्ञाय होगी जो उक्त निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई तक निर्धारण वर्ष के लिए अपने कुल कर का भुगतान करतें हैं। वर्ष 2015-16 के लिए 10 प्रतिशत की छूट उन निर्धारितियों को अनुज्ञाय होगी जो देय कर 31-8-2015 तक जमा करवा देते हैं। दाताओं को दी जाएगी, जो बकाया कर की राशि 31 अगस्त, 2015 तक जमा करवा देंगे।
- पैरा 5 में, उप पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
 

"(ख) देर से अदायगी की दशा में, प्रतिमास 1.5% की दर से ब्याज या उसका भाग प्रभारित किया जाएगा:— परन्तु वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के लिए सम्पत्ति कर के बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि 31 अगस्त, 2015 तक उनके बकाया भुगतान कर दिये जाते हैं।"

डॉ० महावीर सिंह,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 29th June, 2015

**No. 14/6/2015-3CII.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 87 read with Sub-section (1) of Section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, with immediate effect, namely:-

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees) Notification No. S.O. 85/H.A.16/ 1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013, -

1. In para 4, for sub-paras (ii), (iii) and (iv), the following sub-paras shall be substituted, namely:-
  - "(ii) A one time rebate of 30% shall be allowed to those property owners who clear all the property tax dues/ arrears for the years 2010-11 to 2012-13 upto 31st August, 2015.
  - (iii) Those who have already deposited the tax, the excess amount, if any, shall be adjusted against their future property tax liabilities, without any interest, provided they clear all the dues, including the property tax for the year 2015-16 upto 31st August, 2015.
  - (iv) Rebate of 10% would be admissible to those assesses who pay their total tax for the assessment year by the 31st July of that assessment year. For the year 2015-16, a rebate of 10 % shall be admissible to those assesses who deposit the due tax upto 31st August, 2015."
2. In para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

"(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged :  
Provided that one time waiver of interest on the arrears of Property Tax pending since years 2010-11 to 2014-15 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st August, 2015."

DR. MAHAVIR SINGH,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.

*[Authorised English Translation]*

## HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT  
(COMMITTEES)

## Notification

The 3rd March, 2014

No. S.O. 38/H.A. 16/1994/S. 87/2014.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (Act 16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, with immediate effect, namely:—

## Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), Notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013.—

1. In para 2, in item F, after sub-para (xi) the following sub-para shall be inserted, namely:—

"(xii) Petrol Pump: 50% of Commercial Property Tax rate for both A1 and A2 cities, respectively;

(xii) J.T. Park, Cyber City/ Park: 50% of Commercial Space rate for both A1 and A2 cities, respectively."

2. In para 3, after sub-para (v) the following sub-para shall be inserted, namely:—

"(vi) 100% rebate till 31st March, 2016, shall be given to properties situated in 'Lal Dora' of those villages, which have come in the limits of Municipal Corporations on or after 1st April, 2010,

(vii) 50% rebate shall be given on the flats up to 2000 square feet."

3. In para 4.—

(a) in sub-para (i), for the figures, words and sign "10th December, 2013," the figures, words and sign, "31st March, 2014" shall be substituted

(b) in sub-para (iv), for the figures, words and sign "10th December, 2013," the figures, words and sign, "31st March, 2014" shall be substituted

P RAGHAVENDRA RAO,

Principal Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.



हरियाणा सरकार  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग  
(समितियाँ)  
अधिसूचना  
दिनांक 3 मार्च, 2014

संख्या का०आ० 39/ह०अ० 16/1994/धा० 69/2014.—हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 84 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का०आ० 86/ह० अ० 24/1973/धा० 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् --

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का० आ० 86/ह० अ० 24/1973/धा० 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में --

1. पैरा 2 में, मद ऊ में, उप पैरा (xi) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरे रखे जायेंगे अर्थात्:--

“(xii) पेट्रोल पम्प: क्रमशः बी तथा सी दोनों शहरों के लिए वाणिज्यिक सम्पत्ति कर दर का 50 प्रतिशत।

(xiii) आई टी पार्क, साइबर सिटी/पार्क: क्रमशः बी तथा सी दोनों शहरों के लिए वाणिज्यिक स्थान कर का 50 प्रतिशत।”

2. पैरा 3 में, उप-पैरा (v) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरे रखे जायेंगे, अर्थात् --

“(vi) दिनांक 31 मार्च 2016 तक शत प्रतिशत छूट उन गावों के लाल डोरों में स्थित सम्पत्तियों को दी जाएगी, जो दिनांक प्रथम अप्रैल, 2010, को या इससे बाद नगरपरिषदों/समितियों की सीमाओं में आती हैं।

(vii) 2010 का छूट तक के कलेंडर को 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।”

3. पैरा 4 --

(क) उप पैरा (ii) में, “10 दिसम्बर, 2013” अको, शब्द तथा चिह्न के स्थान पर “31 मार्च, 2014” अंक, शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ख) उप पैरा (iv) में, “10 दिसम्बर, 2013” अको, शब्द तथा चिह्न के स्थान पर, “31 मार्च, 2014” अंक, शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

पी० राघवेन्द्र राव,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 4th December, 2013 ]

हरियाणा सरकार  
शहरी-स्थानीय निकाय विभाग  
(समितियाँ)  
अधिसूचना

दिनांक 4 दिसम्बर, 2013

संख्या 2/21/2013-आर० II.—हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 84 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 69 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का०आ० 86/ह०अ० 24/1973/धा० 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 86/ह०अ० 24/1973/धा० 69/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 4 में,—

(क) उप-पैरा (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) 30 प्रतिशत की एक मुश्त छूट उन सम्पत्ति मालिकों को अनुज्ञात की जाएगी जो अपने सभी देय/बकाया सम्पत्ति कर (वर्ष 2012-13 तक) 10 दिसम्बर, 2013 तक जमा करा देते हैं।”;

(ख) उप पैरा (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iv) 10 प्रतिशत की छूट उन निर्धारितियों को अनुज्ञेय होगी जो उस कर निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई तक निर्धारण वर्ष के लिए अपने कुल कर का भुगतान करेंगे। वर्ष 2013-14 हेतु, 10 प्रतिशत की छूट उन निर्धारितियों को अनुज्ञेय होगी जो देय कर 10 दिसम्बर, 2013 तक जमा कराएंगे।”

पी० राधवेन्द्र राव,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

48

94

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 4th December, 2013]

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**  
**(COMMITTEES)**

**Notification**

The 4th December, 2013

**No. 2/21/2013-R-II.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 69 read with sub-section (1) of section 84 of the Haryana Municipal Act, 1973(24 of 1973), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O.86/H.A.24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013, with immediate effect, namely :—

**Amendment**

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O.86/H.A.24/1973/S.69/2013, dated the 11th October, 2013, in para 4,—

(a) for sub- para (ii), the following sub- para shall be substituted, namely :—

“(ii) A one time rebate of 30% shall be allowed for those property owners who clear all their property tax dues / arrears (upto the year 2012-13) by 10th December, 2013;”

(b) for sub- para (iv), the following sub- para shall be substituted, namely :—

“(iv) Rebate of 10% would be admissible to those assesses who pay their total tax for the assessment year by the 31st July of that assessment year. For the year 2013-14, the rebate of 10% shall be admissible to those assesses who deposit the due tax by 10th December, 2013.”

P. RAGHAVENDRA RAO,  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Urban Local Bodies Department.